

प्रेस नोट

व्यपहरण के अभियोग में वांछित अभियुक्त थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार



श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय व श्री वेद प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामनगर पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 श्री आशीष मिश्र मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र तिवारी, हे0का0 अकबर अली खान व म0काक0 स्मृति यादव के साथ पीड़िता की सुरागरसी-पतारसी में थाना से रवाना होकर ग्राम सूजाबाद मौजूद था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि साहब सूजाबाद गाँव से जो दो बहने गायब है एक लड़के के साथ गंगा नगर कॉलोनी के आदम वीर बाबा मंदिर के पास बैठे हैं जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पीड़िता के पिता को मौके पर बुलाकर मय मुखबिर मय हमराह आदम वीर बाबा मंदिर के पास पहुँचे तो मुखबिर दूर से ही इशारा कर बताया की वही तीनों है जो एक साथ बैठे हैं जिसे वादी मुकदमा/पीड़िता के पिता ने देखते ही पहचान कर बताया कि साहब वह दोनों बच्चियाँ मेरी है तथा जो बगल में लड़का बैठा है उसका नाम निखिल है जिसे मैंने कुछ दिन पहले समझाया था उसने समझाते समय यह कहा था मैं तुम्हारी लड़की से ही शादी करूंगा। उ0नि0 आशीष मिश्र मय हमराह मंदिर के पास बैठे तीनों व्यक्तियों के पास पहुंचे तो पुलिस वालों को देखकर दोनों लड़कियों के पास बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास किया कि एक बारगी दविस देकर पकड़ लिये गये

पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम निखिल कुमार पुत्र शेखर निवासी ग्राम पट्टी मुईअन थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 19 वर्ष बताया पकड़े गये गये व्यक्ति को अपराध का बोध कराकर हिरासत पुलिस लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0166/2021 धारा 363/366/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम निखिल कुमार पुत्र शेखर निवासी ग्राम पट्टी मुईअन थाना जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निखिल कुमार पुत्र शेखर निवासी ग्राम पट्टी मुईअन थाना जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान:- .आदम वीर बाबा मंदिर, गंगा नगर कॉलोनी ग्राम सूजाबाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- 13.07.2021 समय 10.25 बजे।

गिरफ्तारी टीम थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी :-

- 1.उ0नि0 आषीश मिश्र, चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 वीरेन्द्र तिवारी, थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 अकबर अली खान थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।
4. म0काक0 स्मृति यादव, थाना रामनगर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।